

जयपुर

पुलिस से नकली दवा सप्लाई करने वाला दबोचा, बचने के लिए पौड़ी गढ़वाल में काट रहा था फरारी

Friday, November 29, 2019 11:10 AM



जयपुर। रुपए कमाने के

लिए किसी भी हद तक जाकर नकली दवा का कारोबार करने वाले गिरोह के एक और सरगना को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो चुका है। नकली दवा बेचने वाला यह शातिर डेढ़ साल से लोगों को धोखा दे रहा है। पुलिस उपायुक्त उत्तर राजीव पचार ने बताया कि 6 सितम्बर को वचन सिंह मीणा औषधि नियंत्रण अधिकारी ने एक रिपोर्ट दी कि 'मैसर्स दर्श फार्मा' फिल्म कॉलोनी के मालिक विनय मंगल ने नकली लोसार एच टेबलेट का क्रय-विक्रय किया जा रहा है। 9 सितम्बर को दर्श फार्मा पर कार्रवाई करते हुए 21,188 स्ट्रिप नकली लोसार एच टेबलेट बरामद की। विनय मंगल यह दवा नकली दवा श्री गणपति एन्टरप्राइजेज चांदनी चौक दिल्ली के मालिक भूपेन्द्र शर्मा से खरीदने का बिल पेश किया था। औषधि विभाग के द्वारा दिल्ली स्थित श्री गणपति एन्टरप्राइजेज चांदनी चौक पहुंचकर चैकिंग की गई तो मौके पर उक्त दुकान बंद पाई गई।

रुड़की से खरीदते थे दवा

पचार ने बताया कि लोसार एच टेबलेट बीपी को कन्ट्रोल करने में यूज की जाती है। इस मामले की जांच के लिए एडीसीपी धर्मेन्द्र सागर और एसीपी मेघचंद मीणा के निर्देशन में टीम गठित की गई। टीम ने 17 अक्टूबर को अभियुक्त भूपेन्द्र कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया। भूपेन्द्र कुमार शर्मा ने नकली दवा बड़ी मात्रा में रुड़की निवासी संदीप त्यागी से खरीदना कबूल किया। भूपेन्द्र अभी जेल में है। इसकी जमानत राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से खारिज हो चुकी है। पिछले एक माह से रुड़की निवासी अभियुक्त संदीप त्यागी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम प्रयास कर रही थी। 21 नवम्बर को अभियुक्त संदीप त्यागी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम रुड़की हरिद्वार भेजी गई। पुलिस टीम ने 7 दिन तक मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार, कोटद्वार व पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड तक पीछा किया, लेकिन पुलिस टीम पहुंचने से पहले ही वह फरार हो जाता। ज्यादातर फरारी इस शातिर ने पौड़ी गढ़वाल के पहाड़ों में ही बिताई। पुलिस टीम ने पीछा कर 27 नवम्बर को संदीप त्यागी के रुड़की पहुंचने पर पकड़ लिया।

ऐसे चलता था नेटवर्क

संदीप त्यागी ने कबूल किया कि वह लोसार एच टेबलेट हापुड़ उत्तर प्रदेश निवासी शुभम गुप्ता से लेता था। शुभम गुप्ता मैन्यूफैक्चरर से माल तैयार करवाकर मुझे देता था। मैं प्राइवेट ट्रेवल्स की बसों के मार्फत नकली दवा के पैकटों को जयपुर भिजवा देता था। बस ड्राइवर-कंडक्टर के मोबाइल नम्बर भूपेन्द्र को भेज देता था और भूपेन्द्र उक्त मोबाइल नम्बर दर्श फार्मा के मालिक विनय मंगल को भेज देता था। विनय मंगल या उसके आदमी जयपुर में ट्रेवल्स की बसों से नकली दवा प्राप्त कर उनको राजस्थान में सप्लाई कर देते थे। भूपेन्द्र शर्मा ने राजस्थान में दर्श फार्मा के विनय मंगल व अन्य को बहुत बड़ी मात्रा में नकली दवा बेची है। अभियुक्त संदीप त्यागी ने लोसार एच टेबलेट की 10 स्ट्रीप (एक डिब्बा) 400 रुपए में शुभम गुप्ता से खरीदकर उसको 450 रुपए में भूपेन्द्र को बेचान करता था। भूपेन्द्र आगे विनय मंगल (दर्श फार्मा फिल्म कॉलोनी जयपुर) को बेच देता था। विनय इन दवाओं को राजस्थान के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स पर सप्लाई करता था। पुलिस संदीप त्यागी को पकड़ चुकी है। अब विनय मंगल, शुभम गुप्ता सहित अन्य शातिर फरार हैं।

Source: <http://www.dainiknavajyoti.net/jaipur/jaipur-police-arrested-fake-medicine-supplier.html>